



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5—दिसम्बर 11, 2009 (अग्रहायण 14, 1931)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5—DECEMBER 11, 2009 (AGRAHAYANA 14, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 नवम्बर 2009

सं. डीपी/पर्स-1/2009/0082/3/31/98--राष्ट्रपति, श्री दलजीत सिंह चावला, सहायक लोक अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 7.10.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सी.बी.आई. में लोक अभियोजक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2009/3404/3/45/92--राष्ट्रपति, श्री के. जयबालन, सहायक लोक अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 1.10.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सी.बी.आई. में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 नवम्बर 2009

सं. 18/10/2007-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री अंजन चक्रवर्ती, उप कमांडेंट एस.ए.पी. 9वीं बटालियन, संध्या कृष्णनगर नादिया (पश्चिम बंगाल पुलिस) को दिनांक 29.10.2009 के पूर्वाह्न से वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- (नये वेतनमान पीबी-3, रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड रु. 6,600/- में तीन वर्ष की अवधि के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, के संवर्ग के अधीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता में उप प्रधानाचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

धनी राम
सहायक निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 19 नवम्बर 2009

सं. 3/4/2009-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री एम. के. छाबड़ा, भा.पु.से. (उड़ीसा : 88) को दिनांक 26 अक्टूबर 2009 (अपराह्न) से वेतनमान

पीछी-4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 10,000/- में 4 फरवरी 2012 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

धनी राम
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 नवम्बर 2009

सं. ओ. दो-6912/2009-कार्मिक (सहा. कमा.)--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 24.04.2009 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री अरूप मण्डल सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर. एल.ए.-6912) 70 बटालियन केरिपु बल, ने दिनांक 01.10.2009 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.10.2009 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

टी. चन्द्रशेखरन
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ. दो-6096/2009-कार्मिक (सहा. कमा.)--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 31.07.2009 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री ताता रमेश बाबु सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर. एल.ए.-6096) 4 बटालियन के.रि.पु. बल, ने दिनांक 01.11.2009 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.11.2009 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

टी. चन्द्रशेखरन
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ. दो-5169/09-कार्मिक--श्री विकास यादव, उप कमान्डेन्ट (इरला-5169) 158 बटालियन के.रि.पु. बल, का सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस दिनांक 30.10.2008 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 05.11.2009 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 05.11.2009 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

टी. चन्द्रशेखरन
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 नवम्बर 2009

सं. ई-28017/1/नोटि/2009/कार्मिक-II/2431--केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अधीन सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर जाने के कारण श्री देवेन्द्र सिंह, उप कमान्डेन्ट/कार्य.

को केओसुब की नफरी से दिनांक 15.11.2009 (पूर्वाह्न) को अलग कर दिया गया है।

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 12 नवम्बर 2009

सं. प्रशा. I/का.आ. सं. 180--महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली, इस कार्यालय के श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को लेखापरीक्षा अधिकारी कौडर में रु. 9,300-34,800/- के वेतन बैंड 2, जिसमें रु. 5,400/- का ग्रेड वेतन मान्य है, में दिनांक 03.11.2009 (पूर्वा.) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

हस्ता./- अपठनीय
निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 11 नवम्बर 2009

सं. प्रशा. I/1038-XXVI/2009-10/1037--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल ने श्रीमती सिप्रा मुखोपाध्याय, सहायक लेखा अधिकारी को रु. 9,300--34,800/- + रुपये 5,400/- के ग्रेड वेतन में लेखा अधिकारी के रूप में दिनांक 01.09.2009 (पूर्वाह्न) अथवा कार्यभार ग्रहण की तारीख जो भी बाद में हो, के प्रभाव से प्रोन्नति दी है।

उनका पदस्थापन आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

[प्राधिकार : प्र.म.ले. के दिनांक 31.08.2009 के आदेश]

जे. आर. विश्वास
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)

महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 13 नवम्बर 2009

सं. प्रशा. I/ले. व ह./1/4-26/2009-2010/133--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हैदराबाद ने निम्नलिखित वरिष्ठ लेखाकार को सहायक लेखा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न के लिए रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड रु. 4,800/- के संवर्ग वेतन के साथ उनके नाम के सम्मुख बतायी गई प्रभावी तिथि से सहर्ष पदोन्नत किया है:--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री आर कृष्णा	22.09.2009
2.	श्री डी. पदमजा	03.11.2009

यह पदोन्नतियों के आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो तो, पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन जारी किए जाते हैं।

ई. श्रीनिवासन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-16, दिनांक 11 नवम्बर 2009

सं. 1054बी/ए-32013/4-उपमहा. (वेधन)/90/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति जी, श्री ए. के. चटर्जी, निदेशक (वेधन), चयन श्रेणी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की उप-महानिदेशक (वेधन) के रूप में पदोन्नति पर नियुक्ति इसी विभाग में वेतन बैंड-4 के वेतनमान रूपए 37,400--67,000/- और ग्रेड वेतन रूपए 10,000/- में नियमानुसार वेतन पर, नियमित आधार पर 01.07.2009 से प्रभावित आगामी आदेशों तक अनुमोदित करते हैं।

मनोज मंडल
वेधन अभियंता (कनिष्ठ)
कृते महानिदेशक

सं. 1053बी/ए-19012/(4-पी.डी.)/2003/19बी--श्री प्रभाकर धरन्नोवोर, वेधक श्रेणी-II द्वारा दिए गए त्याग-पत्र की संस्तुति महानिदेशक, भा.भू.स. द्वारा किए जाने पर 27.11.2007 (अपराह्न) से प्रभावित श्री प्रभाकर धरन्नोवोर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से कार्यमुक्त है।

मनोज मंडल
वेधन अभियंता (कनिष्ठ)
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2009

सं. 111/4/2009-प्रशा. II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री जे. एस. साहनी, लेखाधिकारी, विद्वप्रनि, नई दिल्ली, दिनांक 31.10.2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एल. एच. रॉलानुल
उप निदेशक (प्रशा.)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 27 अक्टूबर 2009

सं. पीडी/11(1)/2009-भर्ती-III/2009/8222--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती प्रिया कलमकर, प्रवर श्रेणी लिपिक, को दिनांक 03.08.2009 (पूर्वाह्न) से 18.09.2009 (अपराह्न) तक, रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में

इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

सं. 18/008/2009-ई.आर./3635--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 01.09.2009 की पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) में वैज्ञानिक अधिकारी (सी) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम और पदनाम	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु. में)
1.	श्री वोन्टेडू फानी कार्तिक	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
2.	श्री अनिबान गूइन	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
3.	श्री ललित मोहन शर्मा	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
4.	श्री राहुल शुक्ल	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

सं. 18/007/2009-ई.आर./3636--राष्ट्रपति, श्री जे. क्रिस्टोफर को 03 अगस्त, 2009 को पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक वेतन बैंड 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन) में संरक्षा अनुसंधान संस्थान (एस.आर.आई.), परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) कलपाक्कम में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 16 नवम्बर 2009

सं. नाईस/काप्रभ.I/04/06/1008--दिनांक 30.10.2009 की अधिसूचना सं. नाईस/काप्रभ.I/04/06/ 922 के क्रम में, श्रीमती जीना फिलिप्स, सहायक लेखा अधिकारी को रु. 5,400/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड-2 में इसी इकाई में, स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 16.12.2009 अथवा भावी आदेशों तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/काप्रभ.1/04/06/1009--दिनांक 30.10.2009 की अधिसूचना सं. नाईस/काप्रभ.1/04/06/ 923 के क्रम में, श्रीमती जे. स्वरूपा रानी, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड-2 में इसी इकाई में, स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 16.12.2009 अथवा भावी आदेशों तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

कार्यालय मुख्य वास्तुक (न.दि.क्षे.)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. 27/117/88-मु.वा.(न.दि.क्षे.)/1395-1401--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप श्रीमती मंजू घई, तकनीकी अधिकारी, कार्यालय मुख्य वास्तुक (न.दि.क्षे.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2009 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होती है।

विजय प्रकाश राव
सम्पर्क अधिकारी, मु.वा. (न.दि.क्षे.)

दिनांक 30 नवम्बर 2009

सं. 27/10/2009-मु.वा.(न.दि.क्षे.)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप श्री विनोद कुमार तिवारी, वरिष्ठ वास्तुक, कार्यालय मुख्य वास्तुक (न.दि.क्षे.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2009 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

विजय प्रकाश राव
सम्पर्क अधिकारी, मु.वा. (न.दि.क्षे.)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ब्रह्मपुत्र इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 13 नवम्बर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/स.ब.शिलांग/22--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत यह सूचना दी जाती है कि यह लिखित से तीन महीने का मैसर्स ब्रह्मपुत्र इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा उप-धारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

डी. एन. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नागालैण्ड मिसिनाइस ब्रिक्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
शिलांग-793001, दिनांक 13 नवम्बर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/स.ब.शिलांग/23--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत यह सूचना दी जाती है कि यह लिखित से तीन महीने का मैसर्स नागालैण्ड मिसिनाइस ब्रिक्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा

डी. एन. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेजुहर मेडीकल एण्ड एडोकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
शिलांग-793001, दिनांक 13 नवम्बर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/स.ब.शिलांग/24--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत यह सूचना दी जाती है कि यह लिखित से तीन महीने का मैसर्स मेजुहर मेडीकल एण्ड एडोकेशन प्राईवेट लिमिटेड के नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा

डी. एन. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नॉर्थ ईस्ट डेन्टल केयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 13 नवम्बर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/स.ब.शिलांग/25--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत यह सूचना दी जाती है कि यह लिखित से तीन महीने का मैसर्स नॉर्थ ईस्ट डेन्टल केयर प्राईवेट लिमिटेड के नाम जब तक कारण दर्शित न किया जाए उक्त अधिनियम की धारा उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा

डी. एन. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री निलाकन्डा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 11 नवम्बर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/एरनाकुलम/560/2009/00368
 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री निलाकन्डा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ
 कम्पनी रजिस्ट्रार
 केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एलामेड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 11 नवम्बर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/एरनाकुलम/560/2009/00392
 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एलामेड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ
 कम्पनी रजिस्ट्रार
 केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सीबीएसएल सॉफ्टवेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 13 नवम्बर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/एरनाकुलम/560/2009/00172
 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सीबीएसएल सॉफ्टवेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ
 कम्पनी रजिस्ट्रार
 केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स क्रिक गार्डन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 16 नवम्बर 2009

सं. 560(5)/18747--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रिक गार्डन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ
 कम्पनी रजिस्ट्रार
 केरल एण्ड लक्षद्वीप

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 20th November 2009

No. DP Pers.-I/2009/0082/3/31/98—The President is pleased to appoint Sh. Daljeet Singh Chawla, Assistant Public Prosecutor, CBI as Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 07.10.2009 and until further orders.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

No. DP Pers.-I/2009/3404/3/45/92—The President is pleased to appoint Sh. K. Jayabalan, Public Prosecutor, CBI as Sr. Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 01.10.2009 and until further orders.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(BUREAU OF POLICE RESEARCH &
DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 18th November 2009

No. 18/10/2007/Admn.—The President is pleased to appoint Shri Anjan Chakraborty, Deputy Commandant, SAP, 9th Bn. Sandhya, Krishnanagar, Nadia (West Bengal Police) as Vice Principal on deputation basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- (new scale of pay of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-) in the Central Detective Training School, Kolkata under Bureau of Police Research & Development Cadre for a period of three years with effect from 29.10.2009 (FN).

DHANI RAM
Asstt. Director (Admn.)

The 19th November 2009

No. 3/4/2009-Admn.—The President is pleased to appoint Shri M. K. Chhabra, IPS (OR : 88) as Director in Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi on deputation basis in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the afternoon of 26th October, 2009 upto 4th February, 2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

DHANI RAM
Asstt. Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 7th November 2009

No. O-II-6912/2009-Pers. (AC)—Consequent on acceptance of notice of Voluntary Retirement from service dated 24.04.2009, Shri Arup Mondal, Assistant Commandant

(IRLA : 6912) of 70 Bn CRPF, relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st October, 2009. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 01.10.2009 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN
DIG (Pers.)

No. O-II-6096/2009-Pers. (AC)—Consequent on acceptance of notice of Voluntary Retirement from service dated 31.07.2009, Shri Tata Ramesh Babu, Assistant Commandant (IRLA : 6096) of 4 Bn CRPF, relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st November, 2009. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 01.11.2009 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN
DIG (Pers.)

No. O-II-5169/2009-PF-Pers.—Consequent on acceptance of his notice of resignation dated 30.10.2008 from Government Service by the Competent Authority, Shri Vikas Yadav, Dy. Commandant (IRLA-5169) of 158 Bn, has relinquished his post on 05.11.2009 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 05.11.2009 (AN).

T. CHANDRASEKHARAN
DIG (Pers.)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 17th November 2009

No. E-28017/1/Noti./2008/Pers.-II/2431—Consequent upon compulsory retirement under Rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965, from Govt. Service, Shri Devendra Singh, Deputy Commandant/Exe. stands struck off strength of CISF Unit 6th Reserve Battalion Deoli as well as from the services of CISF w.e.f. 15.11.2009 (FN).

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110002, the 12th November 2009

No. Admn.-I/O.O No.-180—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints Sh. Rajinder Singh, Assistant Audit Officer of this office to officiate as Audit Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 03.11.2009 (FN) until further orders.

Sd./- ILLEGIBLE
Director (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 1st November 2009

No. Admn.-I/1038-XXVI/2009-2010/1037—The Principal Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote Smt. Sipra Mukhopadhyay, Asstt. Accounts Officer as Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- per month with effect from 01.09.2009 (FN) or the date of taking over the charge, whichever is later.

Her posting order will be issued separately.

[Authority : Pr. A.G's Order dated 31.08.2009]

J. R. BISWAS
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 13th November 2009

No. Admn.-I/A&E/I/4-26/2009-2010/133—The Principal Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Senior Accountants to officiate as Assistant Accounts Officers in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name	O.O. No. & Date	Date of assumption of Charge as A.A.O.
1.	Shri R. Krishna	Admn.I/A&E/I/4-26/2009-10-62 dt.-22.09.2009	22nd September, 2009 Forenoon
2.	Shri D. Padmaja	Admn.I/A&E/I/4-26/2009-10/80 [dt] 03.11.2009	03rd November, 2009 Forenoon

The promotions ordered are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

E. SRINIWASAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-16, the 11th November 2009

No. 1054B/A-32013/4-DDG(Drilling)/90/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to approve the appointment of Shri A. K. Chatterjee, Director (Drilling) S.G., Geological Survey of India on promotion as Dy. Director General (Drilling) in the same department on pay according to rules in the scale of pay of PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay of Rs. 10,000/- on regular basis with effect from 01.07.2009 until further orders.

MANOJ MANDAL
Drilling Engineer (Jr.)
for Director General

No. 1053B/A-19012(4-PD)/2003/19B—On the recommendations of the resignation tendered by Shri Prabhakar Dharannavar, Driller Gr.-II w.e.f. 27.11.2007 (AN) by the Director General, GSI Shri Prabhakar Dharannavar stand released from the Geological Survey of India with effect from 27.11.2007(AN).

MANOJ MANDAL
Drilling Engineer (Jr.)
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
(DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL
PUBLICITY)

New Delhi, the 5th November 2009

No. 111/4/2009-Admn.-II—On attaining the age of superannuation, Shri J. S. Sahni, Accounts Officer, DAVP, New Delhi, retired from Government Service with effect from 31.10.2009 (AN).

L. H. RUOLNGUL
Dy. Director (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 27th October 2009

No. PD/11(1)/2009-R-III/2009/8222—Controller, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Smt. Priya Kalamkar, Upper Division Clerk, as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-, with effect from 03.08.2009 (FN) to 18.09.2009 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 30th October 2009

No. 18/008/2009-ER/3685—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Scientific Officer (C) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the forenoon of 01.09.2009 until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Pay Band and Grade Pay (in Rs.)
1.	Shri Vonteddu Phani Karthik	15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
2.	Shri Anirban Guin	15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
3.	Shri Lalit Mohan Sharma	15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
4.	Shri Rahul Shukla	15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)

O.T.G. NAIR
Under Secy.

No. 18/007/2009-ER/3636—The President is pleased to appoint Shri J. Christopher as Scientific Officer (C) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay) at the Safety Research Institute (SRI), Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Kalpakkam with effect from the forenoon of August 03, 2009 until further orders.

O.T.G. NAIR
Under Secy.

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 16th November 2009

No. NFC/PAR-I/04/06/1008—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/922 dated 30.10.2009, the ad-hoc appointment of Smt. Zeena Philips, Asstt. Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the same unit, has been extended upto 16.12.2009 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/1009—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/923 dated 30.10.2009, the ad-hoc appointment of Smt. J. Swaroopa Rani, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the same unit, has been extended upto 16.12.2009 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

DIRECTORATE GENERAL OF WORKS O/O CHIEF ARCHITECT (NDR)

New Delhi, the 30th September 2009

No. 27/117/88-CA(NDR)/Estt./1395-1401—Consequent upon her attaining the age of superannuation, Smt. Manju Ghai, Technical Officer, Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi-110011, retires from Government Service with effect from the afternoon of 30.09.2009.

VIJAY PRAKASH RAO
Liaison Officer to Chief Architect (NDR)

New Delhi, the 3rd November 2009

No. 27/10/2009-CA(NDR)/Estt.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Vinod Kumar Tiwari, Senior Architect, Central Public Works Department,

New Delhi retires from Government Service with effect from 31st October, 2009 (AN).

VIJAY PRAKASH RAO
Liaison Officer to Chief Architect (NDR)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Brahmaputra International Private Limited

Shillong-793001, the 13th November 2009

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/Sec 560/2009/00232—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Brahmaputra International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

GULAB CHAND YADAV

Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nagaland Mechanised Bricks Company Limited

Shillong-793001, the 13th November 2009

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/Sec 560/2009/00244—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nagaland Mechanised Bricks Company Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

GULAB CHAND YADAV

Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mezbur Medical and Education Private Limited

Shillong-793001, the 13th November 2009

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/Sec 560/2009/00152—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mezbur Medical and Education Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

GULAB CHAND YADAV

Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. North East Dental Care Private Limited

Shillong-793001, the 13th November 2009

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/Sec 560/2009/00150—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. North
East Dental Care Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
Company will be dissolved.

GULAB CHAND YADAV

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sree Neelakanda Engineering Works Private Limited

Ernakulam-682021, the 11th November 2009

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/Sec 560/2009/00368—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Sree
Neelakanda Engineering Works Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said Company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH

Registrar of Companies

Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Elamede Foods Private Limited

Ernakulam-682021, the 11th November 2009

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/Sec 560/2009/00392—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Elamede
Foods Private Limited unless cause is shown to the con-
trary, will be struck off the register and the said Company
will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH

Registrar of Companies

Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. CBSL Softech India Private Limited

Ernakulam-682021, the 13th November 2009

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/Sec 560/2009/00172—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. CBSL
Softech India Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said Company
will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH

Registrar of Companies

Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Creek Garden Exports Private Limited

Ernakulam-682021, the 16th November 2009

No. 560/18747—Notice is hereby given pursuant to sub-
section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
the name of M/s. Creek Garden Exports Private Limited
has this day been struck off the register and the said Company
is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH

Registrar of Companies

Kerala and Lakshadweep

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009